



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 1981/वैशाख 24, 1903  
No. 102] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 1981/VAISAKHA 24, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

जिस्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

नई दिल्ली, 14 मई, 1981

सं० प्रतिअदायगी/सां सू०/15/81

सार्वजनिक सूचना

का० सं० 600/2502—2710/81 प्र०ज०:—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70—प्र०ज०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सां सू० 40/80, दिनांक 19 सितम्बर, 1980 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उप-क्रम सं० 2603(क)(i), (ii) और (iii) के सामने "माल का विवरण" स्तम्भ में, "(हाथ से करोवाकारी किए गए प्रयत्न हस्तचालित मशीन से करोवाकारी किए गए वस्तुओं से सिद्ध)" के रूप में पढ़े जाने वाले कोष्ठकों और शब्दों का, जहाँ कहीं भी आए हों, शेष किया जाएगा।

यह "सार्वजनिक सूचना" 3 अप्रैल, 1981 को लागू हुई समझी जाएगी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Indirect Taxes Division)

NO. DRAWBACK/PN-15/81

New Delhi, the 14th May, 1981

PUBLIC NOTICE

F. No. 600/2502-2710/81-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby

makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN 40/80, dated the 19th September, 1980 :—

In the Column "Description of goods" against S.S.No. 2603(A)(i), (ii) and (iii), the brackets and words reading as "(other than hand-embroidered or hand-operated machine embroidered fabrics)" wherever they occur shall be omitted.

This "Public Notice" shall be deemed to come into force on the 3rd of April, 1981.

सं० प्रतिप्रदायगी/सा०सू० 16/81

### सार्वजनिक सूचना

फा०सं० 600/2713-2714/80 प्र०अ० :—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, प्रसाधारण, दिनांक 25 अगस्त 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सा० सू० 40/80 दिनांक 19 सितम्बर, 1980 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप क्रम सं० 2713 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथातः :—

उप क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिप्रदायगी की दर	विनिधान	
			सीमाशुल्क	कै० उ० शु०
1	2	3	4	5
2713	पटसन विनिमित्तियां, जिनमें पटसन से निर्मित सभी प्रकार की तैयार वस्तुएं (जिनमें विमलीपटम पटसन अथवा मेस्टा तंतु शामिल हैं) शामिल हैं जिनमें जूट का भार सर्वाधिक हो, भले ही उसमें कागज, प्लास्टिक, मानवनिर्मित तंतु तागे कता हुआ सूत आदि जैसी अन्य सामग्री हो अथवा नहीं हो।			
	(i) जब उसी रूप में निर्यात की गई हो।	पटसन से बनी वस्तु पर कोई प्रतिप्रदायगी स्वीकार्य नहीं है। कागज से बनी, प्लास्टिक से बनी, मानवनिर्मित तंतु तागे से बनी, कते हुए सूत से बनी वस्तुएं और/अथवा अन्य सामग्री से बनी वस्तुओं के लिए, यथास्थिति, प्रतिप्रदायगी की उपयुक्त दर की अप्रदायगी इस अनुसूची की संगत उप क्रम संख्या के सामने विनिर्देशानुसार तथा उसमें उल्लिखित यदि कोई शर्तें हैं तो उनके अन्वये रहते हुए, की जा सकती है।		
	(ii) जब पटसन तागों, पटसन वस्त्रों और पटसन की विनिमित्तियों से भिन्न प्रतिप्रदायगी हेतु पात्र माल के निर्यात में अथवा निर्यात के संबंध में पैकिंग सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया गया हो।	पटसन से बनी वस्तुओं के संबंध में 660 रुपये (केवल छः सौ साठ रुपये) प्रति मी. टन जमा कागज से बनी, प्लास्टिक से बनी मानवनिर्मित तंतु तागों से बनी, कते हुए सूत से बनी वस्तुओं और/अथवा अन्य निर्मित सामग्री के लिए प्रतिप्रदायगी की उपयुक्त दर जो इस अनुसूची की संबंधित उप क्रम संख्या के सामने यथा विनिर्दिष्ट है तथा उसमें उल्लिखित यदि कोई शर्तें हैं तो उनके अधीन हैं।		

2. यह सार्वजनिक सूचना 19 सितम्बर, 1980 को लागू हुई समझी जाएगी।

## No. DRAWBACK/PN-16/81

## PUBLIC NOTICE

F. No. 600/2713-2714/80-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-40/80 dated the 19th September, 1980 :—

For Sub-Serial No. 2713 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sub. Sl.No.	Description of goods	Rate of drawback	Allocation	
			Cus.	C.Ex.
2713	Jute manufactures including made up articles manufactured out of jute (including Bimlipatam jute or Mesta Fibre), all sorts, in which jute predominates in weight, whether or not containing other materials like paper, plastic, man-made filament yarn, spun yarn etc.			
	(i) When exported as such :	No drawback is admissible in respect of jute content. The appropriate rate of drawback may be paid for paper content, plastic content, man-made filament yarn content, spun yarn content, and/or other materials contained, as the case may be, as specified against the relevant sub-serial No. of this schedule subject to the conditions if any, mentioned therein.		
	(ii) When used as packing material in or in relation to the export of goods eligible for drawback, other than jute yarn, jute fabrics and jute manufactures.	Rs. 660/- (Rupees six hundred and sixty only) per tonne in respect of jute content plus the appropriate rate of drawback for paper content, plastic content, man-made filament yarn content, spun yarn content and/or other materials contained as specified against the relevant sub-serial number of this schedule subject to the conditions, if any, mentioned therein.		

2. This public notice shall be deemed to have come into force on the 19th day of September, 1980.

G.R. SHARMA, Dy. Secy.

